

सधु-सरस्वती सभ्यता और उज्जयिनी मध्याह्न रेखा

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

NCERT की नई पाठ्यपुस्तकों में पुरानी पाठ्यपुस्तकों की तुलना में कई बदलाव किये गए हैं। इसका उद्देश्य [सकूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2023](#) और [राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020](#) के अनुरूप पाठ्यपुस्तकों को तैयार करना है, जिसमें पारंपरिक भारतीय ज्ञान के एकीकरण एवं सामाजिक विज्ञान शिक्षण हेतु विषयगत दृष्टिकोण पर बल दिया गया है।

NCERT की पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन:

- इनमें [हड़प्पा सभ्यता](#) को 'सधु-सरस्वती' सभ्यता के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसमें सरस्वती नदी की प्रमुखता पर प्रकाश डाला गया है।
 - इसमें उल्लेख किया गया है कि सरस्वती नदी (जिसी अबघग्गर-हकरा नदी के रूप में जाना जाता है) की [हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख भूमिका थी और इसके सूखने से इस सभ्यता के पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ।](#)
- [ग्रीनवचि मध्याह्न रेखा](#) को अपनाने से बहुत पहले भारत की अपनी प्रधान मध्याह्न रेखा थी जिसी "[मध्य रेखा](#)" के नाम से जाना जाता था, जो [उज्जैन शहर](#) से होकर गुजरती थी।
 - पाठ्यपुस्तक में '[उज्जयिनी मध्याह्न रेखा](#)' की अवधारणा का परिचय दिया गया है जो भारत की एक [प्राचीन प्रधान मध्याह्न रेखा](#) थी जिसका उपयोग खगोलीय गणनाओं के लिये किया जाता था।
- [संरचना और विषय-वस्तु में अन्य परिवर्तन:](#)
 - इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल विषयों की पूर्व की अलग-अलग पाठ्यपुस्तकों के विपरीत, नई पाठ्यपुस्तकके एक ही खंड में [पाँच विषयों](#) को शामिल किया गया है।
 - इसका उद्देश्य सामाजिक विज्ञान शिक्षा के क्रम में अधिक एकीकृत और अंतःविषयक दृष्टिकोण विकसित करना है।
 - पुरानी पाठ्यपुस्तकों की तुलना में, [विविधता पर आधारित अध्याय में अब जाति-आधारित भेदभाव](#) तथा असमानता पर कम बल दिया गया है।

और पढ़ें... [राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020](#), [सकूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2023](#)